

हारयि न हम्मित बसिरयि न साई राम
हारयि न हम्मित बसिरयि न साई राम~~~

हारयि न हम्मित बसिरयि न साई राम~~
तू क्यों सोचे बंदे सब की सोचे साई राम~~~

दीपक ले के हाथ में सतगुरु राह दिखाये~~
पर मन मूर्ख बावरा आप अँधेरे जाए~~~

पाप पुण्य और भले बुरे की वो ही करता तोल~~
ये सौदे नहीं जगत हाट के तू क्या जाने मोल~~~

जैसा जसि का काम पाता वैसे दाम~~
तू क्यों सोचे बंदे सब की सोचे साई राम~~